

# दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## गोरखपुर-273009

(नैक प्रत्यायित 'B' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

☎ : 0551.2334549

☎ : 9792987700

e-mail : dnpggkp@gmail.com

website : www.dnpgcollege.edu.in



दिनांक 02-05-2020

### समाचार स्वरूप प्रकाशनार्थ

दिग्विजयनाथ पी जी कॉलेज गोरखपुर के आई.क्यू.ए.सी सेल की पूर्व निर्धारित बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में डॉ पवन कुमार पाण्डेय, संयोजक हेल्पडेस्क द्वारा लॉक डाउन के दौरान महाविद्यालय के एन.एस.एस. व रोवर्स-रेंजर्स व छात्र कल्याण समिति के माध्यम से अब तक के किये गए प्रयासों - कोविड 19 के प्रति जागरूकता, हर्बल सैनिटाइजर तथा मास्क का निर्माण व वितरण, आरोग्य सेतु एप्प के इनस्टॉल की अपील के साथ ही खाद्य सामग्री व लंच पैकेट वितरण से संबंधित किये गए कार्यों के जानकारी की आख्या प्रस्तुत की। विषय को आगे बढ़ाते हुए आई.क्यू.ए.सी के संयोजक डॉ राज शरण शाही ने महाविद्यालय के समेस्टर आधारित कक्षाओं के ई-क्लासेस और ई-कंटेंट पर किये जा रहे प्रयास की सराहना की तथा सत्र 2020-21 के लिए शैक्षिक पंचांग के निर्माण और कोविड 19 सेल व ई-कंटेंट सेल के गठन पर बल देते हुए प्राचार्य डॉ शैलेन्द्र प्रताप सिंह के इस प्रस्ताव कि आगामी सत्र में लॉकडाउन, सोशल डिसटेंसिंग, सभी के मुँह पर मास्क, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए तीन पालियों में महाविद्यालय के संचालन, ई-क्लासेज तथा ई-कंटेंट की पूरी तैयारी के साथ ही ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी सुझाव देते हुए सभी सदस्यों का विचार आमंत्रित किया। इस बैठक में आई.क्यू.ए.सी तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य श्री प्रमथ नाथ मिश्र ने महाविद्यालय में चल रही गतिविधियों को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया और अगले सत्र के लिए लॉकडाउन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी करने का भी सुझाव दिया।

प्राचार्य डॉ शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि महाविद्यालय में नैक मूल्यांकन अंतिम चरण में लॉकडाउन के कारण पीयर टीम के आने में विलम्ब हुआ है। लॉक डाउन के पश्चात नैक मूल्यांकन का कार्य सम्पन्न कराया जाना है। इसलिए सभी शिक्षक व नैक से जुड़े हुए विशिष्ट समितियों के सदस्य गण अपने आवास पर ही रहते हुए नैक संबंधित तैयारियों के साथ ही साथ अपने से संबंधित पाठ्यक्रमों पर ई-कंटेंट तैयार करें जिसे वेबसाइट पर अपलोड कराया जा सके।

इस बैठक में सदस्य डॉ शशि प्रभा सिंह, डॉ शुभ्र श्रीवास्तव, श्री विवेक शाही, डॉ अमर नाथ तिवारी, श्री संतोष तिवारी, श्री बृजेश विश्वकर्मा आदि ने भी अपने विचार रखे। अंत में डॉ राज शरण शाही ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

डॉ शैलेश कुमार सिंह  
प्रभारी, सूचना व जनसंपर्क